



**icmr**  
INDIAN COUNCIL OF  
MEDICAL RESEARCH

**NIRTH**  
NATIONAL INSTITUTE OF  
RESEARCH IN TRIBAL HEALTH

आई.सी.एम.आर-राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार  
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Research in Tribal Health  
Department of Health Research, Ministry of Health  
and Family Welfare, Government of India

No. JBP/NIRTH/Budget/Limited Tender/L-2/2019-2020

Dated .05.2019

सीमित निविदा आमंत्रण (LIMITED TENDER INVITATION)

- 3 JUN 2019

निदेशक, आई.सी.एम.आर - राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, एन.आई.आर.टी.एच काम्प्लेक्स, नागपुर मार्ग, पो.ऑ. गढा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482 003 द्वारा इस संस्थान के स्टेट लेवल वी.आर.डी.एल स्टेबलिशमेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरिस फार मैनेजिंग एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलामेटिस संस्तुत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान नीचे दर्शाये विवरणानुसार निम्नलिखित उपकरण की खरीद करने हेतु दोहरी बोली-पद्धति में विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेता/ वितरकों से मोहर-बंद सीमित निविदायें दिनांक **02-07-2019** दिन मंगलवार (पूर्वाह्न 11.00 बजे) तक आमंत्रित की जाती हैं।

The **Director**, ICMR-National Institute for Research in Tribal Health, NIRTH Complex, Nagpur Road, P.O.-Garha, Jabalpur – 482 003 invites sealed limited tender in Double Bid System up-to **02-07-2019 (Tuesday) (11.00 AM)** from Manufacturers/ Sole Authorized Dealer/ Distributors for purchase of following equipments under **State level VRDL for establishment of a network of laboratories for managing epidemics and Natural Calamities recommended by Department of Health Research, Government of India** for the financial year 2019-2020 as per details given below:-

उपस्करों की सूची

**List of equipments**

All below mentioned equipments are highly specialized machines and required for highly specialized research needs. Therefore, specification/quality of manufacturers as shown against their names below or equivalent will be preferred.

SI. No.	Name of the Equipment	Qty Required	Specification	EMD Amount	Companies for Reference
I	II	III	IV	V	VI
1.	Biological safety cabinet	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certification:</b> NSF 49/EN1249 or Equivalent standard</li> <li>• <b>Design:</b> Approximately 4 Feet length X 2 feet Depth, Bio safety cabinets Class II, Type A2; 304 stainless steel interior Epoxy-coated steel exterior, Removable, seamless, dished work surface with lift out knobs Door- Fully closing, clear 1/4” tempered safety glass sash Counter balanced with base stand.</li> <li>• <b>Circulation:</b> Class 100, Supply and</li> </ul>	18,000/-	ESCO Global, Haier BioMedical, Thermo Fisher Scientific

			<p>exhaust through HEPA/ULPA filters. Inflow velocity of 105 fpm (0.5 m/sec), Down flow velocity of 55 fpm (0.3 m/sec), 70 % air recirculation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Light:</b> UV and sufficient illumination for work space.</li> <li>• <b>Gauges:</b> For monitoring the condition of all HEPA/ULPA filters as well as work space.</li> <li>• <b>Services Required:</b> Installation &amp; onsite validation, Calibration certificates</li> <li>• <b>Manuals:</b> Operation, maintenance &amp; part list with detailed specifications, Operational &amp; maintenance Training</li> <li>• <b>Power Supply:</b> Should include 210-240V/50 Hz</li> </ul>		
2.	CO <sub>2</sub> Incubator	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> Hot air Water jacketed unit with at least 3 adjustable stainless steel shelves with inner glass door.</li> <li>• <b>Capacity:</b> 150-200 lit</li> <li>• <b>Temperature:</b> Range: ambient to 50°C; Uniformity ± 0.2°C at 37°C</li> <li>• <b>CO<sub>2</sub> concentration:</b> Adjustable from 0-20%</li> <li>• <b>Sensor:</b> Thermal conductivity sensor for CO<sub>2</sub> regulation</li> <li>• <b>Relative humidity:</b> Up to 93-95% at 37°C</li> <li>• <b>Alarm:</b> Audiovisual alarm for adjusted CO<sub>2</sub>, temperature and relative humidity levels.</li> <li>• <b>Filters:</b> Chamber HEPA filter and microbiological filters on all gas inlets and outlets and sample port.</li> <li>• <b>Display:</b> Digital; microprocessor controlled</li> <li>• <b>Accessories:</b> Humidity pan, 2 stage CO<sub>2</sub> gas regulator with pressure gauges, tubing, roller based stand with CO<sub>2</sub> gas cylinder of appropriate capacity.</li> <li>• <b>Power Supply:</b> 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Optional:</b> Separate quotes for all necessary filters</li> <li>• <b>Certificate:</b> CE/ any other reputed certification</li> </ul>	18,000/-	NuAire Limited, ESCO Global, Thermo Fisher Scientific, Hettich India Pvt. Ltd, Eppendorf AG
3.	Positive Pressure Filtration	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 mL autoclavable Stainless Steel Filter Holder</li> <li>• Fitting Inlet: Funnel SS autoclavable (Diameter about: 8 cm, Height</li> </ul>	4,500/-	Merck Millipore, Thermo Fisher Scientific, Sartorius AG

			<ul style="list-style-type: none"> <li>about: 20 cm)</li> <li>• Fitting Outlet: Perforated silicone stopper mounts in standard 1 L filtering flask</li> <li>• Silicone stopper</li> <li>• Filter Diameter: about 50 mm (suitable to hold standard 0.22 micron 47 mm filter)</li> <li>• Filtration Area: about 9 cm<sup>2</sup></li> <li>• Vacuum pump of double stage, oil free diaphragm type, maintenance free pump suitable for single place filtration assemblies with for flow rates of up to 30 L/min, pump operational at 220-230 V AC 50-52Hz</li> <li>• Should be supplied with extra silicone tubing of appropriate length with 0.22 micron syringe filter units, silicone stopper, additional clamps (2 Nos) filtration flask and box of 100nos 0.22 micron 47 mm filter</li> </ul>		
4.	BOD Microbiological Incubator (28°C)	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double walled body with inner chamber of Stainless Steel and outer galvanized steel with non-corrosive epoxy powder coated; full view glass door.</li> <li>• <b>Capacity:</b> 100-120L with an internal fan for uniform air circulation</li> <li>• <b>Inner chamber:</b> 3-4 shelves and with illumination</li> <li>• <b>Temperature:</b> Control: microprocessor based with digital display, range: 5°C to 50°C with an accuracy of +/-0.5°C Uniformity: +/-1.0°C throughout the chamber</li> <li>• <b>Humidity:</b> Adjustable from 40% to 95%Rh</li> <li>• <b>Door alarm:</b> Low/high temperature alarm</li> <li>• <b>Cooling:</b> CFC free refrigeration</li> <li>• <b>Power Supply:</b> 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Certificate:</b> CE/ISO/ISI certification needed</li> </ul>	9,000/-	NuAire Limited, ESCO Global, Thermo Fisher Scientific, Hettich India Pvt. Ltd, Eppendorf AG, REMI Lab World
5.	Thermal Cycler	01 No	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Design:</b> 96 well, with 6 separate peltier blocks to provide independent temperature zones to run gradient PCR with hot bonnet.</li> <li>• <b>Capability:</b> 0.2ml, 0.5ml PCR tubes or microplates; to accommodate PCR volumes ranging</li> </ul>	24,000/-	Applied Biosystems- Thermo Fisher Scientific, Eppendorf, Bio-Rad Laboratories, Inc.

			<p>from 10- 100ul.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Run Mode:</b> Standard and fast run</li> <li>• <b>Temperature:</b> Range +4-100°C, Accuracy +/-0.25 from 35-99°C, Uniformity &lt;0.5°C (20 sec after reaching 95°C)</li> <li>• <b>Ramp rate:</b> Maximum should be 5°C / sec and adjustable between 3 - 5°C /sec</li> <li>• <b>Program:</b> Around 800 typical programs; with USB flash drive expansion</li> <li>• <b>Power Supply:</b> Should include 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Certificate:</b> CE/ISO/ international certification of safety and calibration needed</li> </ul>		
6.	Real time RT-PCR	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Table top model</li> <li>• Complete system including basic system, essential accessories, the state-of art computer workstation, acquisition and analysis software, startup kit inclusive of calibration standards etc.</li> <li>• Open system to accommodate Taqman, SYBR green and all other fluorescent dye based chemistries.</li> <li>• Peltier based 96 well block</li> <li>• Standard optical 96 well plates, 0.2 ml strips, 0.2ml tubes compatibility</li> <li>• Min sample value requirement – 5µl</li> <li>• CCD camera with halogen/LED and at least five excitation and five emission filters</li> <li>• Multiplexing ability up-to five dyes in a single run</li> <li>• Calibrated dyes at installation: FAM/SYBR Green, VIC/JOE, NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red®, and Cy5, Should offer flexibility in dye selection.</li> <li>• Facility to calibrate new dye within the wavelength range without addition of new filters</li> <li>• Passive reference dye ROX or any other calibrated dye and should be optional</li> <li>• Option for melt curve analysis</li> <li>• Temperature range 4°C to 100°C</li> <li>• Sensitivity: Detection of 1 copy of template</li> <li>• Software applications: Comparative Ct, Standard Curve, Relative</li> </ul>	72,000/-	Applied Biosystems- Thermo Fisher Scientific, Eppendorf AG, Bio-Rad Laboratories, Inc.

			<p>Standard Curve, Allelic Discrimination / SNP Genotyping, Plus/Minus, dissociation / melt curve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 220 V /50Hz. All accessories</li> <li>• IVD and CE mark or equivalent</li> </ul>		
7.	-20°C Vertical Deep Freezer	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capacity:</b> 600-700 litre</li> <li>• Inner shelf: <b>6-9</b></li> <li>• <b>Refrigerant:</b> CFC free</li> <li>• <b>Temperature control:</b> Micro-processor controlled, Digital display with temperature resolution of 0.1°C</li> <li>• <b>Alarms:</b> Low/high temperature, power failure</li> <li>• <b>Door closing and locking adjustment:</b> self closing door with key door lock, adjustable leveling feet standard (optional casters)</li> <li>• <b>Noise:</b> &lt;50db</li> <li>• <b>Power supply:</b> 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Certification:</b> CE or equivalent</li> </ul>	12,000/-	Thermo Fisher Scientific, Crispold, Blue Star
8.	-80°C Vertical Ultra low Freezer	01 No	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Galvanized steel sheet body with epoxy paint and vacuumed polyurethane foam panels, outer double door with locking facility. Alarm for audible &amp; visual fault acknowledgement, low &amp; high temperature audio visual alarms, condenser fault alarm, remote contact alarm, open door alarm, clean filter Indicator and power failure alarm. Castor wheels &amp; leveling adjustor should be provided for adjustment and installation.</li> <li>• <b>Capacity:</b> Approximately 650–700L</li> <li>• <b>Refrigerant:</b> CFC &amp; HCFC Free</li> <li>• <b>Cooling system:</b> Cascade cooling system with two stage compressors</li> <li>• <b>Doors:</b> Triple silicon section seal, Fitted with decompression valve facility to lower air pressure inside the freezer for easy door opening.</li> <li>• <b>Inner Compartment:</b> Minimum 3 compartments with doors</li> <li>• <b>Temperature:</b> Range-55 to-86°C, Stability+/-1°C, uniformity+/-3°C</li> <li>• <b>Pull down time to +25°C to -80°C:</b> 5 to 6 hrs</li> <li>• <b>Energy Consumption:</b> 13-14kWh/day</li> <li>• <b>Noise:</b> &lt;60db</li> </ul>	36,000/-	Thermo Fisher Scientific, Celfrost, Labocon Inc

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Additional Accessories:</b> SS Racks and cardboard boxes</li> <li>• <b>Power Supply:</b> 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Certification:</b> CE and UL certification</li> </ul>		
9.	Automated ELISA Microplate Washer	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capability:</b> 96 well microplates and strips, with flat, round, or “V” bottom well</li> <li>• <b>Manifold:</b> Should have both 8 and 12 Channels interchangeable manifold</li> <li>• <b>Vacuum and fluid delivery:</b> In built with Positive displacement syringe pump, drive Systems with adjustable flow rates</li> <li>• <b>Program:</b> Memory for around 50 programs including dispensing Volume (50 to 300ul/well) and multispeed microplate shaking program</li> <li>• <b>Bottles:</b> Wash, rinse and waste (volume 4-6 liter)</li> <li>• <b>Safety devices:</b> Aerosol cover, removable Plate carrier, spill over protection and overflow protection safety system</li> <li>• <b>Display:</b> LCD Display with Membrane Keypad</li> <li>• <b>Power Supply:</b> 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Certification:</b> CE or equivalent</li> </ul>	6,000/-	Lisa Wash(Tulip Diagnostics Pvt. Ltd.), Biotek Instruments (I) Pvt Ltd., Titertek
10.	ELISA Reader	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capability:</b> 24, 48 or 96 well micro plates</li> <li>• <b>Spectral Range:</b> 400-750nm, Accuracy <math>\pm 1</math>nm or more</li> <li>• <b>Absorbance:</b> 0-4 O.D. Range</li> <li>• <b>Accuracy:</b> Up to 0.001 O.D.</li> <li>• <b>Provision:</b> Curve fittings formulas transformations &amp; control assay validation, with compatible interface with PC &amp; external printer( leaser).</li> <li>• <b>Accessories:</b> Spare Lamps 2 Nos.</li> <li>• <b>Power Supply:</b> 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Certification:</b> CE or equivalent</li> </ul>	19,500/-	Thermo Scientific, Biotek Instruments (I) Pvt Ltd., Bio Rad Laboratories Inc., Tecan Inc
11.	Adjustable Volume Digital Multi Channel Pipettes (autoclavable)	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Must be of a reputed brand, from manufacturer/authorized dealers having calibration facility in Madhya Pradesh. Necessary evidence to be provided.</li> <li>• ISO8655 certified digital multichannel pipettes of variable volume compatible with universal tips. Applications: provision for 6,</li> </ul>	6,000/-	Eppendorf AG, Thermo Fisher Scientific, Sartorius AG

			24, 96 well applications.														
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Range</th> <th>Incre ment</th> <th>Precision</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 to 50µL</td> <td>0.5µL</td> <td>2.0 to 0.7%</td> <td>8 channel, 12 channel</td> </tr> <tr> <td>30-300 µL</td> <td>5µL</td> <td>1.5to 0.3%</td> <td>8 channel, 12 channel</td> </tr> </tbody> </table>	Range	Incre ment	Precision	Type	5 to 50µL	0.5µL	2.0 to 0.7%	8 channel, 12 channel	30-300 µL	5µL	1.5to 0.3%	8 channel, 12 channel		
Range	Incre ment	Precision	Type														
5 to 50µL	0.5µL	2.0 to 0.7%	8 channel, 12 channel														
30-300 µL	5µL	1.5to 0.3%	8 channel, 12 channel														
12.	Fine Analytical Balance	01 No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single pan Analytical Balance with highest accuracy for weighing processes; readouts to have at least four decimal places. Equipped with a draft shield chamber to eliminate interfering ambient effects.</li> <li>• <b>Weighing Range:</b> 0.01 – 60 g or more</li> <li>• <b>Readability:</b> 0.1 mg</li> <li>• <b>Calibration:</b> External</li> <li>• <b>Display:</b> LCD Display</li> <li>• <b>Verification interval:</b> 0.001 g</li> <li>• <b>Pan Size:</b> 80 – 100 mm</li> <li>• <b>Power Supply:</b> 210-240V/50-60 Hz</li> <li>• <b>Certification:</b> CE or equivalent</li> </ul>	1,800/-	Mettler Pvt. Ltd., Sartorius AG, Contech India												
13.	Page and 2D Gel Electrophoresis set up	01 No.	<p><b><u>2 D electrophoresis system:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrophoresis setup with automated 1<sup>st</sup> dimension IEF system, Mini and medium second dimension systems.</li> <li>• System should be used for different types of protein samples (Urine, Blood, Serum and tissue etc)</li> </ul> <p><b><u>1<sup>st</sup> DIMENSION IEF SYSTEM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The IEF unit should accommodate 12 regular strips or more for 7-24 cm strips and preferably of individual lane control for running different samples, pH gradients and focusing protocols in a single run for running 1-12 strips simultaneously</li> <li>• IEF system should have control software option with touch screen/PC control. . System should be provided with IEF running software</li> <li>• System should have power pack supplying voltage of 10,000 V. With 1V increment voltages. For standard Indian conditions.</li> <li>• System should have peltier based cooling platform.</li> <li>• Temperature range should be 10–30°C.</li> </ul>	12,000/-	Thermo Fisher Scientific, Eppendorf AG, Bio-Rad Laboratories Inc.												

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• All accessories (trays etc) should provide with system.</li> <li>• Platform for running the strips should be with gold/silver plated electrode</li> <li>• System should include USB Port to export data for storage and analysis. Data generated by the system can be transferred to a flash drive and opened in Excel</li> <li>• System should include run mode flexibility- to run IPG strips gel Side Up, Gel Side Down and with cup loading configuration.</li> <li>• Should be provide with consumable (2 packs): IEF strips (7cm), IEF buffer, 2D clean up kit, mineral oil, fluorescence dye, standard and protein isolation kit.</li> </ul> <p><b><u>2<sup>nd</sup> Dimension : Mini/medium vertical electrophoresis System:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capable of running upto 4/6 or more strips/gels simultaneously, size approximate 9 X 8 cm, 1mm/0.5 thickness, includes casting stand, with frames, combs, glass plates with permanently bonded/detachable gel spacers for leak proof casting of gels and avoid messy agarose sealing &amp; tape casting of gels. Should supports precast and hand cast gel.</li> <li>• Midi vertical electrophoresis System: Should runs 1-2 gels of approximate 18 X 20 cm size to perform SDS-PAGE, the second dimension 2-D using 17 and 18cm IPG strips. The casting stand's having single-screw clamps exert even pressure along the entire length of the glass plates, providing a leak proof seal without grease or agarose plugs.</li> <li>• EN61010 Safety Power Supply: Should have four slot Power pack with LCD display, should have volt: 10-500V 1 V steps, Current: approximate 2.0 A with 1mA step, Power: 1-500W EN61010 Safety.</li> <li>• Constant voltage, current or power with automatic crossover should have automatic recovery in mid-program after power failure.</li> <li>• Circulating water bath: System</li> </ul>		
--	--	---	--	--



		<p>should quote with 3L capacity and - 50C circulating bath to providing smile-free patterns with as little as 1.5 L of buffer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All system should be of international standards Safety EN 61010-1/CE (European/US) Certified. 8) User list for 2 year from date of quoting for medical customer.</li> <li>• All Compulsory Accessories should be supplied with 1KVA UPS with 1hr backup, Branded laptop should provide with system software.</li> <li>• On site wet demonstration/training should provide.</li> </ul>	
--	--	--	--

**निबंधन एवं शर्तें (Terms & conditions) :**

1. निविदायें दिनांक **02-07-2019 दिन मंगलवार (पूर्वाह्न 11.00 बजे)** तक या इसके पूर्व इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए जिसे उसी दिन **दिनांक 02-07-2019 मंगलवार (अपरान्ह 02:00 बजे)**, निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष जो उपस्थित होंगे खोली जाएंगी। विलंब से प्राप्त निविदायें अमान्य होंगी। उन निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं, जो तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई जाएंगी, उन्हें दिनांक जो **09-07-2019 दिन मंगलवार को (पूर्वाह्न 11:00 बजे)** खोला जाएगा।

Tenders should reach this office positively on or **before 02-07-2019 (Tuesday) at (11.00 AM)**. Those will be opened on same day i.e. on **02-07-2019 (Tuesday) at (02.00 PM)** before the Tenderer or their authorized representatives who will be present at that time. Late tenders will not be entertained and the financial bids of the tenderers whose bids will qualify technically, will be opened on **09-07-2019 (Tuesday) at (11.00 AM)**.

2. प्रत्येक फर्म जो निविदा देता है साधारणतः अपनी फर्म के मुद्रित प्रपत्र पर ही निविदा भरेगा। फर्म अपने उत्पाद के नवीनतम संस्करण के बारे में भी बताए, जिसमें इस केंद्र के द्वारा उल्लेख की गई अथवा उच्चतर तकनीकी विशिष्टताएँ हों। यदि आदेश दिए जाने के समय कोई उन्नत संस्करण बाजार में लाया जाता है तो फर्म इस संस्थान को सूचित करेंगी। फर्म द्वारा एक प्रमाण-पत्र देना चाहिए कि यह ब्राण्ड-न्यू उपकरण है न कि जीर्णोद्धारित (रिफर्बिश्ड)।

Every firm who submits a tender shall submit the tender in usual printed form of their firm. The firm should also quote their latest version having the mentioned or higher technical specifications. If there is any upgraded version is launched at the time of placing order, the firm should inform the institute. The firm should submit that the item is a new equipment and not a refurbished.

3. सामग्री का प्रदाय पूरा करने के लिए निविदा में उल्लिखित किए अनुसार दिए गए समय का निविदाकार द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा और उसे निविदाकार की ओर से निविदा का महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा।

The time allowed for supplying items as mentioned in the tender shall be strictly observed

by the tenderer and shall be deemed to be of the essence of the contract on the part of the tenderer.

4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि से छूट प्राप्त फर्मों को छोड़कर प्रत्येक फर्म को प्रत्येक सामग्री के सम्मुख उल्लिखित धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि निदेशक, एन.आइ.आर.टी.एच, जबलपुर के पक्ष में देय हो, को तकनीकी निविदा के साथ कार्यालय में जमा करना होगी, जो कि बाद में निविदा स्वीकृत होने पर रोक ली जाएगी। बगैर धरोहर राशि की निविदा रद्द कर दी जाएगी।

Earnest money mentioned against the item should be deposited by every firm except those firms which are registered with NSIC etc. in the office through Demand Draft along with the Technical Bid in favour of **Director, National Institute of Research in Tribal Health, Jabalpur**, which shall be retained after accepting the tender. Tender without having the EMD is liable to be rejected.

5. निविदा के अस्वीकार होने की दशा में ऐसी अस्वीकृत निविदा के साथ भेजी गई धरोहर राशि निविदाकार को वापस कर दी जावेगी।

In the event of tender being rejected, the earnest money forwarded with such unaccepted tender shall thereupon be returned to the tenderer.

6. निविदाकार यदि पूर्ति-आदेश में उल्लिखित अवधि में सामग्री की पूर्ति करने में असफल रहता है या उनके द्वारा अपनी निविदा में किए गए या बातचीत/चर्चा के दौरान किए गए वायदे पूरा करने में असफल रहता है, तो निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि को शासन के पक्ष में राजसात कर लिया जाएगा और फर्म के साथ आगे कोई व्यापार नहीं किया जाएगा तथा उस फर्म को वर्ज्य-सूची (ब्लैकलिस्ट) में रखे जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

If the tenderer fails to supply the item within the stipulated period or to complete their promises committed in their tender or during negotiation/ discussion, the Earnest Money deposited along-with the tender shall be forfeited and no further business will be done with that firm and action to black list the firm may also be taken.

7. सामग्री का प्रदाय सामान्यतया पूर्ति-आदेश जारी होने की तारीख से 2-3 सप्ताह की अवधि के अंदर कार्यालय परिसर में करना होगा और आयात की जाने वाली सामग्री के संबंध में, सामग्री का प्रदाय निविदा में दर्शाए समय के अनुसार करना होगा। यदि सामग्री के आपूर्ति में बिलंब के कारण किन्हीं प्रभारों का भुगतान किया जाना है, तो उसे निविदा देने वाला वहन करेगा और विशेष आकस्मिक परिस्थिति में पूर्ति आदेश निरस्त भी किया जा सकता है।

The supply should generally be made in the office premises within 2-3 weeks from the date of issue of supply order and in case of imported item, the delivery should be made as the time mentioned in the tender. If there are any charges to be paid due to delay in supply will be borne by the tenderer and the supply order may also be cancelled in special contingent circumstances.

8. विक्रय के बाद सर्विस सुविधाएं अधिमान्यतः जबलपुरधृतियाए मध्यप्रदेश में हों या आसपास कहां है, विवरण दें। कृपया शिकायत दर्ज कराने के बाद कितना समय लगेगा बतायें। विनिर्माता द्वारा स्थानीय समर्थन के लिए दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।

Service of products after sale preferably at **ICMR-NIRTH, Jabalpur** or the nearest place

should be mentioned. Please mention the time after lodging the complaint. A certificate for local support given by manufacturer should be enclosed.

9. आई.एस.ओ. सर्टीफिकेशन प्राप्त प्रदायकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सामग्री आई.एस.आई . या आई.एस.ओ .प्रमाणित होनी चाहिए।  
Priority shall be given to the ISO certified supplier and the material should be ISI or ISO certified.
10. यदि सामग्री की दरें प्रस्तुत करने के उपरांत उद्धृत किये गये उपस्कर (उपकरण) या मॉडल का उत्पादन बंद हो जाता है, तो फर्म समकक्ष या उससे उच्च तकनीक वाला उपकरण प्रदाय करेगी।  
If quoted equipment or model is discontinued after quoting the item, the firm will supply the equivalent or higher version.
11. कीमतें वित्तीय निविदाएं खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए।  
Prices should be valid for 90 days after the date of opening of financial bid.
12. निविदाकार को संलग्न घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे  
The enclosed declaration must be signed by the tenderer.
13. किसी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। 100% भुगतान केवल उपकरण का प्रदाय करने एवं उसका संस्थापन करने तथा उपकरण कम से कम तीन वर्ष की वारण्टी/सी.एम.सी. (परिशिष्ट-ए) में होना चाहिए तथा उपस्कर के मूल्य के दस प्रतिशत की दर से सुरक्षा जमा राशि, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी (परिशिष्ट-बी)/एफ डी आर/डी.डी (जो निदेशक, एन.आई.आर.टी.एच, जबलपुर के पक्ष में विधिवत देय हो) के रूप में हो, जो वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद साठ दिनों की अवधि के लिए वैध होगी प्रस्तुत करने के बाद ही जारी किया जाएगा। उपस्कर का मूल्य 1.00 लाख रुपये तक होने की दशा में सुरक्षा जमा राशि की आवश्यकता नहीं है। फर्म द्वारा सुरक्षा जमा राशि न करने पर इसकी कटौती भुगतान जारी करने के समय कर ली जाएगी।  
No advance payment will be made. 100% payment will only be released after supplying and successful installation of the equipment and should be on at least **3 years Warranty/CMC (Annexure-A)** and after furnishing security deposit in the form of Bank Guarantee (**Annexure-B**) issued by any Nationalized / Commercial bank / FDR (duly pledged in favour of **Director, National Institute of Research in Tribal Health, Jabalpur**) / Demand Draft @ 10% of the value of equipment in favour of Director, **ICMR-NIRTH, Jabalpur**, which will be valid for a period of **sixty days** beyond the expiry of the warranty period. Security deposit is not required in case of value of equipment is up to 1.00 lakh. In case of security deposit is not furnished by the firm then this amount will be deducted at the time of releasing the payment.
14. निविदा सन्निहित लिफाफे के ऊपर “सीमित निविदा स्टेट लेवल वी.आर.डी.एल के अंतर्गत (उपकरण का नाम एवं क्रमांक)” लिखा होना चाहिए। प्रत्येक उपकरण के लिए आवश्यक रूप से अलग-अलग लिफाफे का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि एक ही लिफाफे में एक से अधिक निविदाएं प्राप्त होती हैं तो उनकी सभी निविदाएं सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।

The envelope containing tender should be super scribed with “**Limited Tender for (name of equipment and Sr. No.) under State level VRDL**”. **Separate envelop must be used for each equipment. In case more than one tenders are received in a single envelope, their all tenders will be summarily rejected.**

15. असेम्बल किए हुए कल-पुर्जे या ग्रे-मार्केट के कल-पुर्जे स्वीकार्य नहीं होंगे । उपकरण की किसी प्रकार की मरम्मत/कोई सामग्री बदली करने के लिए विनिर्माता द्वारा अधिकृत एसेसरीज ही प्रयोग में लाई जाएं। गारण्टी/वारण्टी अवधि के दौरान किसी अपग्रेडेशन या अपडेटिंग की आवश्यकता होने पर उसका खर्च प्रदायकर्ता को ही वहन करना पड़ेगा।

Any assembled parts or the parts from the grey market will not be acceptable. For any repair/replacement of the item, only the accessories authorized by the manufacturers should be used. During the Guarantee/warranty period any upgradation or updating, if necessary will have to be done at the cost of the supplier.

16. उपकरण में आयी खराबी की प्रथम सूचना प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर खराबी दूर कर दी जाना चाहिए, ब्रेक-डाउन अवधि इससे अधिक होने पर फर्म/कंपनी के खिलाफ दंड (पेनाल्टी) लगाने की कार्रवाई की जावेगी।

Break down service will have to be provided preferably within 3 working days of the first call. If the break-down period is beyond, The penalty action will be taken against the firm/company.

17. प्रत्येक उपकरण की निविदा के साथ दो अलग-अलग लिफाफे होना चाहिए, जिनमें एक में तकनीकी विवरण दिया होगा तथा दूसरे में उपकरण की कीमत व वित्तीय विवरण आदि का व्यौरा होना चाहिए। प्रत्येक मेक व माडल के लिए अलग-अलग दरें दी जानी चाहिए । जो निविदा तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करेगी, केवल उसे ही वित्तीय पक्षों के विचारार्थ लिया जाएगा।

Every tender for equipments should contain two envelopes one with **technical specification** of the equipment and the other with the **financial tender**. The separate rates for each make & model should be quoted. The tender that qualifies for the technical specification only will be taken for consideration of the financial aspects.

18. विनिर्माता/वितरक होने संबंधी प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

A certificate regarding manufacturer / distributorship should be attached along with the tender.

19. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 47/2017- इंटीग्रेटेड टैक्स (रेट), दिनांक 14 नवंबर, 2017 के अनुसार, यह संस्थान लोक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान हैं एवं वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरणों, एपेरेटस, उपस्करों (कंप्यूटर सहित), प्रयोगात्मक प्रयोजन हेतु एसेसरीज, पार्ट्स, उपभोज्य सामग्री की खरीद हेतु हमें 5% से ऊपर जी.एस.टी छूट का दावा प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही, दिनांक 14/11/2017 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, इस कार्यालय को 5% से अधिक जीएसटी छूट प्रदान की गई है। अतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र सं TU/V/RG-CDE (243)/2016, दिनांक 19.02.2019. द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद हेतु इस संस्थान द्वारा 5% से अधिक जी.एस.टी की छूट प्रदान की गई है।

In terms of Ministry of Finance, GOI Notification No.47/2017-Integrated Tax (Rate), dated 14th November, 2017, this Institute is a Public Funded Research Institute and for purchase of scientific and technical instruments, apparatus equipment (including computers); accessories, parts, consumables experimental purpose we are liable to claim GST exemption above 5%. Further in terms of GOI notification dated 14/11/2017, this office has been granted GST exemption above 5% vide Ministry of Science & Technology letter No.TU/V/RG-CDE(243)/2016, dated 19.02.2019. Therefore, GST on purchase of laboratory equipments will be paid by this Institute @ 5%.

19. प्रत्येक निविदा प्रपत्र की कीमत रु. निरंक है ।  
The cost of the tender form is **Rs. Nil**.
20. अपूर्ण निविदायें स्वीकार नहीं की जावेंगी।  
Incomplete tenders will not be accepted.
21. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन निर्णय का क्षेत्र जबलपुर रहेगा।  
In case of any dispute, jurisdiction will be at Jabalpur.
22. प्रदायकर्ता को उसके द्वारा जबलपुर या आसपास लगाये गये इसी या अन्य उपकरणों की सूची संस्थापन की तारीख व स्टेशनों की सूची के साथ प्रस्तुत करना होगा और उपयोग कर्ता/ व्यक्ति का इस आशय का प्रमाण-पत्र दें।  
The supplier should mention about the same or other equipment installed in and around Jabalpur along with their stations and date of installation and a certificate from the user/ person.
23. बिना कोई कारण बताये समस्त या किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने या किसी मद की तादाद घटाने या बढ़ाने का अधिकार निदेशक को है । इस संबंध में किसी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जावेगा ।  
Director reserves the Right to accept or reject all or any tender partly or full also increase or decrease the quantity of the items without assigning any reasons. No correspondence will be entertained in this regard.
24. आयातित उपकरण के लिए निविदा की दरें एफ.ओ.बी. आधार पर गंतव्य दिल्ली तक होंगी और सामग्री की डिस्पेच संबंधी समस्त जानकारी जैसे पैकिंग सिलिप, एयर-वे बिल, बिल आफ लैडिंग (मूल प्रति), ओरिजिन सर्टीफिकेट चेम्बर ऑफ कामर्स (मूल प्रति), विशेष रूप से क्रेडिट आपूर्तियों के लिए, दी जाएं। सामग्री का इंश्योरेंस प्रमाण-पत्र (मूल प्रति) पर्याप्त समय पूर्व इस कार्यालय को भेजा जाए।

Rates of tender for imported equipment will be on **F.O.B.** basis destination upto New Delhi, and all the dispatch related information of the item like Packing Slip, Airway Bill, Bill of Lading (Original), Certificate of Origin from Chamber of Commerce (Original), Specially for credit supplies. Insurance Certificate (Original) shall be communicated to

this office well in time.

25. इस निविदा में उल्लिखित उपकरणों की खरीद के लिए हाई सी सेल ऐग्रीमेंट खरीद लागू नहीं होगा।  
High sea sale agreement will not be applicable for purchase of equipment mentioned in this tender.
26. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अर्हता केवल उन्हीं फर्मों को होगी, जो पिछले तीन वर्षों में किए गए लेन-देन का ब्यौरा देंगी। प्रमाण के रूप में पिछले तीन सालों की अंकेक्षित आर्थिक-चिट्ठा की छायाप्रति संलग्न करें, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।  
The firm, which have enclosed transaction details done by them for the last three years will be eligible for submitting the tender form. Please submit the audited balance sheets of last three years as a proof, otherwise tender will not be considered.
27. परिषद के कर्मों या उनके रिश्तेदारों को निविदायें क्रय या प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं है।  
Council employees or their relatives are not entitled to purchase or submit the tender forms.
28. निविदा प्रपत्र की विस्तृत जानकारी इस कार्यालय की वेबसाइट <http://www.nirth.res.in> एवं नई दिल्ली स्थित मुख्यालय की वेबसाइट [www.icmr.nic.in](http://www.icmr.nic.in) पर भी देखी जा सकती है और इन वेबसाइट से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है।  
Detailed Tender documents can be seen and download from the website of this office <http://www.nirth.res.in> and [www.icmr.nic.in](http://www.icmr.nic.in) of Institute's headquarter at New Delhi.
29. निविदाकार को अपना वैध/वर्तमान आयकर चुकता करने का प्रमाण पत्र व पेन नंबर जी.एस.टी.एन की छाया प्रति भी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।  
The tenderer has to submit the copies of their valid/current Income Tax Clearance along with PAN and copies of GSTN also.
30. प्रत्येक निविदाकार, जो अपनी निविदाएं प्रस्तुत करेगा, उसे विधिवत भरा हुआ एवं फर्म द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगा हुआ संलग्न घोषणा-पत्र एवं वारण्टी/ग्यारण्टी प्रमाण- प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।  
Every tenderer, who submits his/her tender, is required to submit the duly filled and signed with seal of the firm, enclosed 'Declaration Form' and warranty/guarantee certificate, otherwise their bid will not be accepted.
31. वारंटी अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम 05 वर्षों के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध प्रभार की राशि का विवरण संलग्न अनुसूची परिशिष्ट-सी में वित्त निविदाके साथ आवश्यक रूप से संलग्न होना चाहिए।  
A schedule for AMC charges for a period of minimum 05 years after warranty period must be attached along-with the price bid in the enclosed (Annexure-C).

32. भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक आपूर्तिकर्ताओं को सभी भुगतान आदि पीए.फ.एम.एस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जाना है। अतः सभी लाभार्थी (प्रदायक/फर्म) आवश्यक रूप से संलग्न मेंडेट फार्म (परिशिष्ट-डी) भरकर निरस्त किए हुए उनके एक चेक की प्रति के साथ जमा करें। लाभार्थी की बैंक खाता संख्या में यदि बाद में कोई परिवर्तन होता है तो पुनरीक्षित मेंडेट फार्म प्रस्तुत करना होगा।

As per GOI instructions, all payments to suppliers etc. are to be made by direct credit to the bank account of the beneficiaries through PFMS. Therefore all the beneficiaries (Suppliers/firms) are essentially required to submit/fill up the mandate form (**Annexure-D**) duly attested along-with a cancelled cheque of the firm. In case there is a change in the beneficiary's account number etc. in later stage, the revised mandate form shall have to be furnished.

33. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पूर्ववर्ती कुल-बिक्री (टर्न ओवर) और पूर्ववृत्ती अनुभव शिथिलनीय हैं बशर्ते सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर -2017) के संगत प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता एवं तकनीकी विशिष्टताओं की पूर्ति होती हो।

Prior turnover and prior experience to Micro & Small Enterprises (MSEs) is relaxable subject to meeting of quality and technical specifications in accordance with the relevant provisions of GFR-2017.

संलग्न : घोषणा पत्र ।

Encl-Declaration form.

निदेशक

Director,

आई.सी.एम.आर.-एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर  
ICMR-NIRTH, JABALPUR

## घोषणा (DECLARATION)

मैं घोषणा करता हूँ कि निविदा सम्बन्धी कागजात जो मुझे सौंपा गया है उसको गुप्त रखूंगा व किसी भी प्रकार की जानकारी अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा।

I hereby declare that I shall treat the tender documents as secret confidential documents and shall not communicate information to any person.

यदि निविदा पूर्णतः या अंशतः स्वीकार की जाती है तो मैं निविदा प्रपत्र की शर्तों के सभी निबंधनों तथा निविदा-आमंत्रण-सूचना में दिए हुए प्रावधानों, वहां तक जहां तक वे लागू हों, का अनुपालन करने और उन्हें पूरा करने और उसमें व्यतिक्रम की दशा में निविदा प्रपत्र की शर्तों में वर्णित धन- राशि को निदेशक, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (भा.आ.अ.प), जबलपुर के पक्ष में समपहृत और संदाय करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। रूपये ----- की राशि डी.डी.संख्या----- दिनांक----- जो निदेशक, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (भा.आ.अ.प.), जबलपुर के पक्ष में देय है, धरोहर राशि (मद-वार) के रूप में इसके साथ संलग्न है।

If the Tender be accepted in whole or in part, I hereby agree to abide by and fulfill all the terms and conditions of the Tender and all the provisions contained in notice inviting tender so far as applicable, and/or in default thereof to forfeit and pay to the **Director, ICMR-NIRTH, (ICMR) Jabalpur**, the sum of money mentioned in the Tender. A sum Rs.----- is hereby forwarded in DD No.----- Dt.----- drawn in favour of **Director, ICMR-NIRTH (ICMR) Jabalpur** as earnest money (item-wise).

स्थान (Place):

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा

पता

SIGNATURE OF TENDERER &  
ADDRESS

दिनांक (Date):



Annexure-A

WARRANTY CERTIFICATE

We Warrant that everything to be supplied by us hereunder shall be brand new, free from all defects and faults in materials, workmanship and manufacture and shall be of the highest grade and quality and consistent with the established and generally accepted standards for material of the type ordered shall be in full conformity with the specification, drawing, or samples, and operate properly. We shall be fully responsible for its efficient operation. This Warranty shall survive inspection of any payment or and acceptance of the goods but shall expire after (except in respect of complaints of which the supply has been notified prior to such date) 36 months plus **sixty days** beyond the expiry of Comprehensive warranty from the date of successful installation, commissioning and acceptance by ICMR-**NIRTH, JABALPUR**.

The obligations under the Warranty expressed above shall include all costs relating to labor, spares, maintenance (preventive and unscheduled) and transport charges from site to the manufacturers work and back and free repair/adjustment or replacement at site or any parts of the equipment which under normal and proper use and maintenance proves defective in design, material or workmanship or fails to conform to the specifications previously given by the ICMR-**NIRTH, JABALPUR** to the supplier.

Signature & seal of bidder

**Note: It should be provided in the letter head of the firm/ company.**

**Annexure-B**

(To be typed on 100 rupees Stamp Paper)

**Performance Bank Guarantee**

Bank Guarantee No.: \_\_\_\_\_

Amount of Guarantee: Rs. \_\_\_\_\_

Valid Up to : \_\_\_\_\_

Guarantee Cover from : \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

**The Director,  
ICMR-National Institute of Research in Tribal Health,  
(Indian Council of Medical Research)  
Ministry of Health, Govt. of India  
Nagpur Road, P.O. Garha, Jabalpur – 482003**

This deed of guarantee executed by (Name of Bank) ..... Constituted under the (Bank Act) ..... having its Corporate Centre at ..... and amongst other places a Branch, ..... (hereinafter referred to as “the Bank”) in favour of **Director, National Institute of Research in Tribal Health – Jabalpur-482003**. (hereinafter referred to as “**the Beneficiary**”) for an amount not exceeding Rs. .... (Rupees ..... at the request of (Name of Firm) ..... (hereinafter referred to as “the Contractors”).

This Guarantee is issued subject to the condition that the liability of the Bank under this Guarantee is limited to a maximum of Rs. .... (Rupees ..... and the Guarantee shall remain in full force upto ..... and cannot be invoked otherwise than by a written demand or claim under this Guarantee served on the bank on or before .....

Where as you have entered in to a contract P.O. No. .... JBP/NIRTH/Stores/Budget/ / Dt: ..... With (Name of Firm) ..... for the supply of ..... which is hereinafter referred to as “the said contract” and where as (Name of Firm) ..... has undertaken to produce Bank Guarantee for the 10% of the contract price amounting to Rs. .... (Rupees ..... to secure its obligations to **National Institute of Research in Tribal Health – Jabalpur – 482003**. for the warranty of the equipment supplied.

We, (Name of Bank) ..... Hereby expressly irrevocably and unreservedly undertake and guarantee as Principal obliges on behalf of (Name of Firm) ..... that in the event **National Institute of Research in Tribal Health, Jabalpur – 482003** declares to us through you that (Name of Firm) ..... has not fulfilled the warranty/other obligations according to the contractual warranty obligations under the said contract to pay you on demand without any reference to M/s ..... an amount of Rs. .... (Rupees .....) Notwithstanding any right/disputes raised by (Name of Firm) ..... or any said or proceedings pending in any competent Indian Court or before any arbitration tribunal, your written demand shall be conclusive evidence to us that such payment is payable under the terms of the said contract and shall be binding in all respect on us.

We shall not be discharged or released from the aforesaid undertaking and guarantee by any arrangements, variations made between you and (Name of Firm) ..... indulgence to (Name of Firm) ..... by you with or without our consent and knowledge or by alterations in the obligations of (Name of Firm) ..... by any forbearance whether as to payment time performance or otherwise.

We further agree and undertake not to revoke this guarantee before the same is discharged in writing by you.

This guarantee shall remain valid until .....

- Notwithstanding anything contained herein.
- Our liability under this guarantee is restricted to Rs. .... (Rupees .....)
- This Bank Guarantee shall be valid up to .....
- We are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only if your serve upon us a written claim or demand and received by us or before ..... i.e. the date of expiry of this bank guarantee.
- The Bank Guarantee should be returned to us after the expiry date for cancellation purpose, even if the original guarantee is not returned, our liability on this guarantee ceased to exist.

Dated at ..... at this ..... Day of .....

Dated: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

(Signature of authorized Officer of the Bank)

Witness (Name, Address & Signature)

1.

**Annexure-C**

**(To be Attached along-with Price Bid only)**  
**Installation, Warranty & Supply of Parts/Spares**

Sl. No.	Particulars	Description/Annexure
1	Free Warranty Details	
2	Number of Preventive Maintenance Visits per year during FREE Warranty	
3	Discount to be offered by the company on the spares/parts/consumables/ attachments etc. for the period of minimum 05 years after supply and installation of the equipment	
4	Whether the charges for Installation, Commissioning and testing at <b>ICMR-NIRTH, Jabalpur</b> , are included in the price list.	

Authorized signature with stamp

**(To be Attached along-with Price Bid only)**

**AMC/CAMC Details**

Year-wise AMC/CAMC charges For 05 years <b><u>(after free warranty)</u></b>	Year	AMC charges	CAMC charges
	1 <sup>st</sup> year		
	2 <sup>nd</sup> year		
	3 <sup>rd</sup> year		
	4 <sup>th</sup> year		
	5 <sup>th</sup> year		

Authorized signature with stamp

Signature & seal of bidder

**MANDATE FORM FOR RTGS/NEFT**

**Annexure-D**

To,  
The Director,  
ICMR-NIRTH,  
Nagpur Road, Garha PO,  
Jabalpur-482 003 (M.P.)

1	Vendor Name (Beneficiary Name)	
2	PAN Number	
3	TAN Number	
4	TIN Number	
5	Service Tax No.	
6	GSTN	
7	Complete Address	
	City	
	Country	
	State	
	District	
	Pin Code Number	
8	Mobile No.	
9	Phone No.	
10	Email	
11	Bank Name	
12	IFSC Code	
13	Account Number	

NOTE: Please attach a photocopy of cancelled cheque for purpose of verification of the concerned Bank account.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete and incorrect information, I would not be hold the user Institute responsible.

Signature/Seal of Dealer/Firm

Date:

